



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 चैत्र, 1941 (श०)

संख्या- 305 राँची, गुरुवार,

4 अप्रैल, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

2 अप्रैल, 2019

संख्या-5/आरोप-1-109/2017-1552 (HRMS)-- श्री अरुण कुमार मुण्डा, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद, पलामू के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1930, दिनांक 04.07.2017 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध उच्च अधिकारियों के निदेशों की अवहेलना करने, मनरेगा अन्तर्गत ससमय मजदूरों का भुगतान नहीं करने तथा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा-3(3) का उल्लंघन करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10008, दिनांक 20.09.2017 द्वारा श्री मुण्डा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्री मुण्डा के पत्र, दिनांक 07.08.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री मुण्डा के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-7553, दिनांक 09.10.2018 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से मंतव्य की माँग की गई तथा मंतव्य अप्राप्त रहने पर विभागीय पत्रांक-657, दिनांक 23.01.2019 द्वारा स्मारित भी किया गया। उक्त के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-97, दिनांक 09.01.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री मुण्डा के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया।

अतः समीक्षोपरांत ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री अरुण कुमार मुण्डा, झांप्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद, पलामू को इस मामले में आरोपों से मुक्त किया जाता है।

| Sr No. | Employee Name G.P.F. No. | Decision of the Competent authority |
|--------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ARUN KUMAR MUNDA 110051224662 | श्री अरुण कुमार मुण्डा, झांप्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद, पलामू को आरोप से मुक्त किया जाता है। |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
